



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1978/माघ 14, 1899

No. 48]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1978/MAGHA 14, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ दंड्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

का. आ. 62(अ.)—भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और 10. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3, 6, 7, 8 और 18 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने तारीख 2 फरवरी, 1978 के आदेश द्वारा 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस (इ)' को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का और उस दल के लिए 'हाथ' प्रतीक आरीक्षित करने का विनिश्चय किया है;

और, उक्त आदेश के परिणाम स्वरूप 1. आंध्र प्रदेश, 2. हरियाणा, 3. जम्मू-कश्मीर, 4. कर्नाटक, 5. मणिपुर और 6. सिक्किम राज्यों और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची में अब तक सम्मिलित किए गए 'हाथ' प्रतीक को हटाना पड़ेगा;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (क) और (घ) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2), तारीख 25 जनवरी, 1978 में का. आ. 40(अ) के रूप में प्रकाशित और तत्पश्चात् समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं. 56/78, तारीख 25 जनवरी, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी 1 में स्तम्भ 1 व 2 में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

'5. इण्डियन नेशनल कांग्रेस (इ) . . . हाथ'

उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में :—

- (1) मद सं. 1. आंध्र प्रदेश के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे प्रविष्टि '6. हाथ' हटा दी जाएगी और 7 से 16 तक की प्रविष्टियां, 6 से 15 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी;
- (2) मद सं. 5. हरियाणा के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे प्रविष्टि '4. हाथ' हटा दी जाएगी और 5 से 20 तक की प्रविष्टियां, 4 से 19 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी;
- (3) मद सं. 7. जम्मू-कश्मीर के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, प्रविष्टि '5. हाथ' हटा दी जाएगी और 6 से 15 तक की प्रविष्टियां, 5 से 14 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी;

(4) मद सं. 8. कर्नाटक के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, प्रविष्टि '6. हाथ' हटा दी जाएगी और 7 से 15 तक की प्रविष्टियाँ, 6 से 14 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी ;

(5) मद सं. 12. मणिपुर के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, विद्यमान '7. गोरैया, 8. रेल का इंजन और 9. हाथ' प्रविष्टियों के स्थान पर, '7. गोरैया और 8. रेल का इंजन' प्रविष्टियाँ रख दी जाएंगी ।

(6) मद सं. 18. सिक्किम के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, प्रविष्टि '4. हाथ' हटा दी जाएगी और 5 से 17 तक की प्रविष्टियाँ, 4 से 16 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी ; और

(7) मद सं. 24. अरुणाचल प्रदेश के सामने, स्तम्भ 2 के नीचे, प्रविष्टि '5. हाथ' हटा दी जाएगी और 6 से 20 तक की प्रविष्टियाँ, 5 से 19 तक के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जाएंगी ।

[No. 56/78-3]

एस. पी. राजे, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 1978

S.O. 62(E).—Whereas by its order dated 2 February, 1978 in exercise of the powers conferred on the Election Commission by Article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, paragraphs 3, 6, 7, 8 and 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in this behalf the Election Commission of India has decided to recognise "Indian National Congress (I)" as a National Party and to reserve the symbol "Hand" to it ;

And whereas the symbol "Hand" hitherto included in the list of free symbols for the States of 1. Andhra Pradesh, 2. Haryana, 3. Jammu and Kashmir, 4. Karnataka, 5. Manipur and 6. Sikkim and the Union Territory of Arunachal Pradesh, shall have to be deleted as a consequence of the said order ;

Now, therefore, in pursuance of clauses (a) and (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/78, dated 25 January 1978, published as S. O. 40(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(ii), dated 25th January, 1978, and as amended from time to time, namely :—

In TABLE 1 appended to the said notification, the following entries shall be made in columns 1 and 2 :—

"5. Indian National Congress (I) Hand"

In TABLE 3 of the said notification :—

(i) against item No. 1. Andhra Pradesh, under column 2, the entry "6. Hand" shall be deleted and entries 7 to 16 shall be renumbered as 6 to 15 ;

(ii) against item No. 5 Haryana, under column 2, the entry "4. Hand" shall be deleted and entries 5 to 20 shall be renumbered as 4 to 19 ;

(iii) against item No. 7. Jammu and Kashmir, under column 2, the entry "5. Hand" shall be deleted and entries 6 to 15 shall be renumbered as 5 to 14 ;

(iv) against item No. 8. Karnataka, under column 2, the entry "6. Hand" shall be deleted and entries 7 to 15 shall be renumbered as 6 to 14 ;

(v) against item No. 12. Manipur, under column 2, for the existing entries "7. Sparrow, 8. Railway Engine, and 9. Hand", the entries "7. Sparrow, and 8. Railway Engine" shall be substituted ;

(vi) against item No. 18. Sikkim, under column 2, the entry "4. Hand" shall be deleted and entries 5 to 17 shall be renumbered as 4 to 16 ; and

(vii) against item No. 24. Arunachal Pradesh, under column 2, the entry "5. Hand" shall be deleted and entries 6 to 20 shall be renumbered as 5 to 19.

[No 56/78-3]

S. P. RAJE, Under Secy.